



प्रेस विज्ञप्ति

07.08.2020

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एमसीएलआर और स्वर्ण ऋण दरों में कमी की

पुणे, 7th अगस्त, 2020: बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) देश के सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगातार पांचवे माह हेतु एमसीएलआर में कमी की है।

एमसीएलआर दर में विद्यमान स्तर से 20बीपीएस अंकों की कमी करते हुए इसे क्रमशः ओवरनाईट अवधि हेतु 6.80% (7.00% से) तथा एक माह अवधि हेतु 6.90% (7.10% से) किया गया है। एक वर्ष की एमसीएलआर दर 10 बीपीएस अंकों की कमी करते हुए 7.40% (7.50% से) किया गया है।

बैंक के एमसीएलआर में कटौती का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि और औद्योगिक विकास को समर्थन देना है।

बैंक ने किसानों और रिटेल ग्राहकों को स्वर्ण ऋण पर अपनी ब्याज दरों में भी कमी की है। अब किसान 1 वर्ष एमसीएलआर अर्थात 7.40% (7.80% से) पर कृषि स्वर्ण ऋण प्राप्त कर सकते हैं। रिटेल स्वर्ण ऋण दरें कम करके 7.50% (8.00% से) की गई हैं।

वर्तमान में महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों और रिटेल ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ती लागत पर स्वर्ण ऋण की ब्याज दरों को संशोधित किया गया है।